

साप्ती पुस्तक सं- 1844

F.D.R.

Schedule XLV-Form No. 134

जायपालक आनंद...
जामील कायं विभाष
जांते जांते बैतिया।

DIVISION

ट्रैनरापुरी

SUB-DIVISION

F.D.R.

मिसनो नारी कोर से उत्तरपुर शरद होमा

MEASUREMENT BOOK

मधु अस्त्र

प्रकाशित किया जाता है ति इसमाली
पुस्तक में कुल - 100 पृष्ठ को पुस्तक में
उनी अंकों के द्वारा गणी हैं।

प्रह्लादी पुस्तक संग्रहालय भूमि
ग्रामीण कर्प उपर्युक्त ग्रन्थालय को
FIR जारी कर PMGSY द्वारा इस प्रकार
जारी किया गया कार्ड के लिए निम्नलिखित
जाहा है।

१५/०९/२०

कार्यपालक विभाग

शासीय कार्य विभाग

कार्यपालक विभाग

१५/०९/२०

प्रह्लादी पुस्तक भूमि रामदुर्गा - बीकांगुली
अधिकारी की पुस्तक; निर्गम किया जाता है।

१५/०९/२०

सहायक अधिकारी

शासीय कार्य विभाग

कार्यपालक विभाग

१५/०९/२०

Sch. XLV - Form No. 134

कार्यपालक विभाग

शासीय कार्य विभाग

कार्यपालक विभाग

DIVISION

27/09/2021

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1844.

Name of officer प्रीति लाल - सहायक
कार्यपालक विभाग

Date of first entry _____

Date of last entry _____

FDR

1

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work					- FDR
Name of road					L 116 - Gardabya to Star Harbour side.
Agency					Departmental
Block					Jogapatti
District					West Champaran
Division					Road Works division, Bettiah
Authority					Executive Engineer
Works division section					
item					Sandbag, Bricklaying Earth work
Record measurement					
1 Sand bag					= 5.20 bags
2 Brick lay					
	1x 7.00x	$\frac{3.80+5.50}{2}$			
		x 1.20			= 39.060 m ²
	1x 7.00x	$\frac{3.80+5.50}{2}$			
		x 1.20			= 39.060 m ²
	1x 3.50x	$\frac{2.20+2.0}{2}$			
		x 0.60			= 4.410 m ²
	1x 2.50x	$\frac{2.20+2.0}{2}$			
		x 0.60			= 4.410 m ²
	1x 5.00x	2.20x 0.20			= 3.025 m ²

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1X	5.50	2.20	0.25		3.025 m^2
1X	2.60	1.90	0.40		1.976 "
1X	0.95	1.95	0.35		2.982 "
1X	4.50	1.80	0.40		3.240 "
1X	4.50	1.80	0.40		3.240 "
1X	2.30	2.10	0.30		2.205 "
1X	3.80	2.15	0.35		2.860 "
1X	2.55	2.10	0.45		2.810 "
1X	2.55	2.10	0.45		2.810 "
1X	2.60	1.65	0.25		1.073 "
1X	2.30	1.75	0.25		1.404 "
1X	2.30	1.75	0.25		1.404 "

Total : 117.30 m²

Date : 22.09.20

20 AC

Record Measurement

1 Earth work

$$1X 12.00 \times (1.15 \times 2.05)$$

$$\times (1.20 + 0.80) = 19.200 \text{ m}^3$$

$$1X 12.00 \times (1.15 \times 2.05) = 19.200 \text{ m}^3$$

$$\times (1.20 + 0.80) = 19.200 \text{ m}^3$$

$$2X 30.00 \times (1.10 + 1.95)$$

$$\times 1.20 = 109.800 \text{ m}^3$$

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1X	22.00	$\times \frac{0.95+1.59}{2}$		31.14 m ²
			$\times (1.20+0.60) = 2.4 \cdot 285 \text{ m}^2$		
	1X	14.00	$\times 0.90 \times 0.600 = 7.560 \text{ m}^2$		
	1X	7.50	$\times 2.60 \times 0.600 = 14.82 \text{ m}^2$		
	1X	16.00	$\times 0.95 \times 0.700 = 10.64 \text{ m}^2$		
	1X	16.00	$\times 0.95 \times 0.700 = 10.64 \text{ m}^2$		
	1X	28.00	$\times \frac{(1.05+1.70)}{2}$		
			$\times \frac{(0.90+0.60)}{2} = 28.875 \text{ m}^2$		
	1X	25.00	$\times \frac{(1.05+1.70)}{2}$		
			$\times \frac{(0.90+0.60)}{2} = 28.875 \text{ m}^2$		
	1X	21.00	$\times \frac{(2.5+1.2)}{2}$		
			$\times \frac{(1.2+0.80)}{2} = 38.85 \text{ m}^2$		
	1X	21.00	$\times \frac{(2.5+1.2)}{2}$		
			$\times (1.2+0.80) = 38.85 \text{ m}^2$		
				1000	366.29 m ²
<u>Recon.</u>					
		20.00			
	J.R.E			ARE	
			Qm		
				30-10-30	

Continuation

Abstract of cost

4

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
Name of road — FDR					
Name of road — L116-Gandaliya to Harshapur tola.					
Agency — Departmental					
Block — Jyogpatti					
Dist - West Champaran.					
Division — RJD Works Division, Bhagalpur					
Authority — Executive Engineer					

Works Division, Bhagalpur

1. Cost of embankment

calculated from the sketch

— gty. wide 7m

$$P-3 = 366.39 \text{ m}^2$$

$$@ A. 25.32 / \text{m}^2 = Rs. 9276 = P7$$

2. placing material at

loading point, loading

with —

gty. wide 7m P-3

$$= 366.39 \text{ m}^2 @ A.$$

$$450.77 / \text{m}^2 = Rs. 165156 = P0$$

Continuation

Continuation